



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34 राँची, सोमवार 28 पौष, 1937 (श०)

18 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

11 जनवरी, 2016

संख्या-8/न.वि./गठन/102/2015-166(अनु०)--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स), धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पलामू जिलान्तर्गत छत्तरपुर अनुमंडल के 10 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-1755, दिनांक-14 मई, 2015 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) घोषित करने का प्रारूप आदेश प्रकाशित करते हुए 30 दिनों के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1624/सा., मेदिनीनगर, दिनांक 2 सितम्बर, 2015 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1755, दिनांक 14 मई, 2015 के प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति/सुझाव

प्राप्त नहीं हुए। उपायुक्त, पलामू ने उक्त पत्र द्वारा छत्तरपुर नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स), धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पलामू जिलान्तर्गत छत्तरपुर अनुमंडल के 10 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से छत्तरपुर नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अनुलग्नक-I**झारखण्ड सरकार****नगर विकास एवं आवास विभाग****छत्तरपुर नगर पंचायत का गठन**

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-585, दिनांक 6 अप्रैल, 15 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में छत्तरपुर अनुमंडल अंतर्गत प्रस्तावित नगर पंचायत छत्तरपुर में सम्मिलित होने वाले 10 राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:-

पंचायत का नाम	क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व
छत्तरपुर पंचायत	1	सडमा	201	1,998	397
	2	छत्तरपुर	290	3,925	1,344
सिलदाग पंचायत	3	करमाकला	282	1,336	421
	4	लोहराही	288	1,947	1,139
बारा पंचायत	5	खाटीन	289	2,887	1,340
	6	बारा	208	3,342	1,144
कठवल पंचायत	7	रामगढ़	207	2,410	842
	8	अर्जुनडीह	204	1,140	898
कचनपुर पंचायत	9	मदनपुर	209	3,062	1,074
मसिहानी पंचायत	10	मसिहानी	336	6,403	1,072
द्य %				28,450	9,671

छत्तरपुर नगर पंचायत एक झलक में:-

1.	छत्तरपुर नगर पंचायत की कुल जनसंख्या	:-	28,450 व्यक्ति
2.	जनसंख्या का घनत्व	:-	9,671 प्रति वर्ग कि.मी.।

अरुण कुमार सिंह,

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 34—50+300 ।